** ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off. & Works: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar-125 001, INDIA Ph.: 01662-276178 Mobile: 98120-20111/40111/40222 Fax: 01662-276145 E-Mail: arceeind@rediffmail.com CIN: L29120HR1992PLC031681

September 04, 2021

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 520121

SUB: NEWSPAPER CLIPPING OF NOTICE FOR 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Dear Sir,

On the captioned subject, we are enclosing herewith the Newspaper Clipping of Notice for Annual General Meeting, Book Closure and E-voting.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For: ARCEE INDUSTRIES LIMITED

(SRISHTI)

COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER

ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125 001 (Haryana) Email: arceeind@rediffmail.com; Tel.: 98120-4011, 98120-40222 CIN: L29120HR1992PLC031681

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 30th September 2021 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary Business as set out in the notice of the 29th AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2020-21. Electronic copies have been sent to all the members whose email ID are registered with the Company/Depository Participants and physical copies have been sent to the members at their registered address whose email ids are not registered with the Company/Depository Participants. This communication and the Notice along with the Annual Report for 2020-21 are available at the following websites www. arceeindustries in and http://evoting.nsdl.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password have been dispatched to the members.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities of the remote e-voting actility. The details of the remote e-voting are as under:-

- Date and time of commencement of remote e-voting: 27th September, 2021 (9:00 a.m.)
- Date and time of end of remote e-voting: 29th September, 2021 (5:00 p.m.)
- 3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2021 (5:00 p.m.)
- A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cut-off date i.e., 23rd September, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
- A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address

Ms Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapast Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4545 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company at arceeind@rediffmail.com or 'Company's registered office.

Notice is also where to the company at all centrogreumman company's registered office.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Gompanies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Diligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 20th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Arcee Industries Limited

(Shruti Gupta) Whole Time Director DIN - 01742368

STG Global Advisory www.bigga.com

Place: Hisar (Haryana) Date: September 3, 2021

Integrated Capital Services Limited

CIN: L74899DL1993PLC051981 Regd. Office: 606, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delh

PUBLIC NOTICE OF CONVENING 28th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC, und, Shahdara

Notice is hereby given that in view of the COVID-19 pandemic, Twenty-Eight (28") Annual General Meet^{IM}
Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with all the a
Disclosures Requirements) Regulation 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, be Company will be held
("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFDF/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 15, 2020 issued by the 1,3" Floor, Cross River
dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India.

In Compliance with the MCA & SEBI Circular(s), the Notice setting out the business te be transacted a Seen sent in electronic Annual Report of the Company for the year 2020-21 will be sent electronically to those members whose pepository's Participants with the Company/ Depository Participant(s). No physical copies of the Notice and the Annual Report we same. Physical copies of the Stock Exchange, i.e BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evotiso being placed on the

In case, you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2020-21.

Members holding shares in physical mode are requested to register/update guilations, 2015 that the writing to Link In Time India Private Limited ("the RTA") at Noble Heights, 1st remain closed from 24th Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 or email at delitate copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and at their vote by electronic attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front and back).

Demat Holding

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/up re under: by following the process mentioned above for-Physical Holding and send 1 place of Folio No along with scanned copy of self-attested Client Master co

ind read with the clause

e 7th AGM. The details

New Notice labulls Housing to raise up to 000 cr via NCDs

GENST OF INDIA ptember 3

HOUSING n Friday said it is to raise up to 27th re through the Share non-convertible will b(NCD) issue next Videorst such offering beingrs. The company is other (MCA raise money from trans e and unsecured In core base issue size is and A with an option to whosher ₹800 crore of

to reiblic issue is of Depostd or unsecured, in phe, non-convertible numbs of face value of Gorpe Sol face value of Attest ach, Indiabulls Finantid in a statement. www.e I issue will open Servicber 6 and close on The \$20,2021.

businanche I issue has a The mize of Rs 200 crore moden shoe option of up addre re, aggregating up The 2 rore," it said.

applic ffering coupons from 8.05% to Place epending on the Date: of investor. The the NCDs ranges months to 87



Gagan Banga

months, and the paper will be listed on the bourses.

"At least 75% of the funds raised through this tranche I issue will be used for the purpose of onward lending, financing, and for repayment of interest and principal of existing borrowings of the company," it said. The balance is proposed to be utilised for general corporate purposes, subject to such utilisation not exceeding 25% of the amount raised.

Vice chairman and MD Gagan Banga said the setbacks of the past are behind it, and the company is more confident of the asset quality being stable now. He said the company had over ₹79,000 crore of AUMs as of June, with 65% of them linked to the housing sector.

LIC picks up nearly 4% stake in BoI

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 3

BANK OF INDIA on Friday said LIC has picked up nearly 4% equity shares of the bank through an open market transaction a day earlier. LIC has picked up nearly 3.9% (15,90,07,791 shares) of the bank through open market acquisition on September 2, 2021, Bank of India said in a regulatory filing.

आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यातयः नवां, के.एम बरवाला रोड, तलबंडी राना, डिसार-125001 (हरियाणा) ई-मेल आईडी: arceeind@rediffmail.com फोन नं0.: 98120-40111, 98120-40222 सीआईएम: L29120HR1992PLC031681

29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक बसोजर और ई-मतदान एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम

मंगलवार, 30 सितंबर, 2021, को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 7वें के.एम. बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार (हरियाणा) में 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निस्तारण हेत् आयोजित की जाएगी। कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट मेजने की प्रक्रिया पूरी की जा बुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ ढिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं और मौतिक प्रतिया उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते

पर भेजी नई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.accecindustries.ir और http://evoting.nedl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को रिमोट ई-मतदान से संबंधित जानकारी के साध-साध, यूजर आईडी एवं पासवर्ड मेज दिया गया है।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20. के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुधिवन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतार्थे) विनिधमावली 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्टॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेत् नेशनल सिक्योरिटीज ढिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

- रिमोट ई-मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः 27 शितंबर, 2021 (प्रातः 9.00 बजे) 2. रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समयः 29 सितंबर, 2021 (सार्य 5.00 बजे)
- रिमोट ई—मतदान की अनुमति 29 सितंबर, 2021 (साथ 5.00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2021 के अनसार कंपनी के रिकटर/लामार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के
- साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है। बह व्यक्ति जो बैतक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है औ कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरधारक है वह बैठक सचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए
- अपना मौजूदा युजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। मतदान पत्र के गाध्यम से मतदान की सविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई-मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में चपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान
- रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपरिथत रह सकते है लेकिन बैठक में अपने मत का पनः उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- रिगोट ई-गतदान से संबंधित किसी पुछतांछ हेत्, सदस्य / लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित पते पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग बौधा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं

022 2499 4545 या टोल फ्री नं. 1800-222-990; ई-मेल: evoting@nsdi.co.in । सदस्यगण कंपनी को ई-मेल: arceeind@rediffmal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं। कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेंबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 वं अनुसरण में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम के उदेश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकेस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक सोमवार, 20 सितंबर, 2021 से गुरूवार, 30 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

> कृते आरसी इंडस्ट्रीज सिमिटेड हस्ता/-(श्रुति गुप्ता) पूर्णकासिक निर्देशक दीखाई एन-01742388

स्थान : हिसार (हरियाणा) दिनांकः 03 सितंबर, 2021



103 के तहत कोरम परा करने के लिए मान्य होंगे।



पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, १ भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 भारत Regd.Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 ई-मेल / e-mail: company.secretary@ell.co.in, दरमाष / Phone: 011-26762855/2580 कंपनी सचिवालय/COMPANY SECRETARIAT

56वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना ई-वोटिंग/रिकॉर्ड तिथि की सूचना

कम्पनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को दोपहर 03:00 बजे आईएसटी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") से आयोजित की जाएगी जिसका उददेश्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीकरण दायित्व और आवश्यक उदघोषणा) विनियम, २०१५ के तहत ०८ अप्रैल, २०२० दिनांकित परिपन्न संख्या १४/२०२०, 13 अप्रैल, 2020 दिनांकित परिपत्र संख्या 17/2020, 05 मई, 2020 दिनांकित परिपत्र संख्या 20 / 2020 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 13 जनवरी, 2021 दिनांकित परिपत्र संख्या 02 / 2021 और सेबी द्वारा जारी 12 मई, 2020 दिनांकित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और 15 जनवरी. 2021 दिनांकित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (सामुहिक रूप से "संबंधित परिपन्न") के अनुपालन में 56वीं एजीएम आमंत्रण सुचना में निर्धारित कार्यों का संपादन करना है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2020-21 के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और संलग्न अन्य दस्तावेज सितंबर 3, 2021 को कम्पनी के सदस्यों को भेज दिए गए जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटस) के साथ पंजीकृत हैं। कथित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (एजेंसी जो रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा देगी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना देखने के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश:

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा दे रही है। सदस्य निम्नलिखित तिथियों के अनुसार दूर किसी स्थान से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एजीएम के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा देने वाली एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से ई-वोटिंग से संबंधित सूचना एवं निर्देश भेज दिए गए हैं। वे रिमोट ई-वोटिंग के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया डीमैटीरियलाइण्ड शेयर, भौतिक शेयर रखने वाले सदस्यों और मेल का पता रजिस्टर नहीं करने वाले सदस्यों को एजीएम की सूचना में भेज दी गई हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मतदान की निम्नलिखित अवधि में उपलब्ध होगी: रिमोट ई-वोटिंग की शरुआत: सबद्र 9.30 बजे से रविवार

1, 100 4 1100 1 177 3 1 1 1 1 1	26 सितंबर, 2021
रिमोट ई-वोटिंग का अंतः	शाम 5.00 बजे, मंगलवार, 28 सितंबर, 2021
कथित तिथि और समय के बाद रिमोट ई-	वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और कथित

अवधि की समाप्ति के बाद रिमोट ई--वीटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कट-ऑफ तिथि, यानी बधवार, 22 सितंबर, 2021 को जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के डिपॉजिटरी रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने या एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने का हकदार होगा।

ईमेल पते को पंजीकृत / अपडेट करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ईमेल पते कम्पनी में पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड से संपर्क करें जिसका कार्यालय 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में है या फिर virenders@alankit.com पर ईमेल करें।

डीमैटीरियलाइज्ड शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं किए है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत / अपडेट करें जिनके पास उनका डीमैट

- एजीएम की सुधना भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य बने व्यक्ति या कोई सदस्य जिसकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है और कट-ऑफ की तिथि में शेयरधारक है वह कम्पनी के आरटीए को virenders@alankit.com पर या एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in अनुरोध भेज कर लॉगइन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकता है जिसकी प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कम्पनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरटीए / एनएसडीएल विधिवत् सत्यापन करने के बाद उनके ईमेल पते पर लॉगइन क्रेडेंशियल भेज देंगे।
- ऐसे सदस्य एजीएम की सूबना में उल्लिखित कम्पनी की निर्दिष्ट प्रक्रिया से ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में दुबारा मतदान के अधिकारी नहीं होंगे।

शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि कम्पनी ने 31 माई, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (0.60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार, 07 सितंबर, 2021 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की हैं. यदि सदस्यगण 56वीं एजीएम में इसकी घोषणा करते हैं।

यदि ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग करने के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या हो तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्य्") और ई-वोटिंग मैनुअल www.evoting.nsdl.com पर देख सकते हैं, जो डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं या फिर सुश्री सोनी सिंह को evoting@nsdl.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं। निवेशक टोल फ्री नंबर 18001020 990 या 1800224430 से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए विवरणों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं:

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

एस. के. पाढी-कम्पनी सचिव

इंजीनियर्स इंडिया भवन 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरमाषः 011–26100258, ईमेलः company.secretary@eil.co.in

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 03.09.2021 आदेशानुसार निदेशक मंडल एस. के. पादी

कम्पनी सचिव

(खाता सं.) L9001060115717409

(खाता सं.) L9001060120230539

स्थान : दिल्ली

संजू (ऋणी), सरिता (सह-ऋणी), राजबीर

दिनांक: 03-09-2021

मनीष कुमार (ऋणी), परवेश राम (सह-ऋणी)

प्रतिभित हित (प्रवर्त्तन) नियमावली. 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभितिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदृद्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सुचना की तिथि से भगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भगतान करें। ऋणधारकों मांग सचना की तिथि को बकाया राशि तथा

ऋणधारकों ⁄गारन्टरों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	<mark> प्रतिभूति परिसम्पति (अचल सम्पति) का विवरण</mark>
ो किशोर कुमार, श्रीमती लीना, श्री	31 अगस्त, 2021	 सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः डब्ल्यूएफ 154/डुप्लेक्स
ातिन ज्ञानचंदानी, श्री पुनीत ानचंदानी, श्रीमती राधिका ानचंदानी, रमा सेविंग मशीन क. प्रॉस्पेक्ट नं. 716652)	रु. 37,53,702/- (रु. सैंतीस लाख तिड़ेपन हजार सात सौ दो मात्र)	माप 162.57 वर्ग मी., वाटर साइड फ्लोर, लेक ग्रोवर सिट कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा पिनकोड-132028
ो मिलन कर्माकर श्रीमती मणि	31 अगस्त, 2021	 सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 126 एवं 127
र्माकर प्रॉस्पेक्ट नं. 730518)	रु. 16,06,021/- (रु. सोलह लाख छः हजार इक्कीस मात्र)	माप 300 वर्ग यार्डस, 2रा तल (रीअर एलएचएस जै कॉलोनी, टी-एक्स्टे. पार्ट-III, उत्तम नगर, नई दिल्ली
ोमती सुनीता, श्री अनुराग	31 अगस्त, 2021	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः भू तल, एरिया माप 5
प्रॉस्पेक्ट नं. 867011)	रु. 7,48,456/- (रु. सात लाख अड़तालिस हजार चार सौ छप्पन मात्र)	वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 742, पुराना लाल डोरा गांव मुनिरका, दिल्ली-110067, दिल्ली, भारत
ो आशीष पॉल, श्रीमती यामिनी		सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः फ्रीहोल्ड डीडीए निर्मि
লৈ	प्रॉस्पेक्ट नं. 904892, रु. 22,52,518/- (रु. बाईस लाख बावन	शॉप नं. 16, एरिया माप 10.68 वर्ग मी., सीएससी में जी
प्रॉस्पेक्ट नं. 904892, 908163,		8 एरिया (मिनी शॉपिंग सेन्टर) रजौरी गार्डन, नई दिल्ली
33821)	(रु. चौदह लाख अठारह हजार छः सौ चार मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं. 933821, रु. 7,07,033/- (रु. सात लाख सात हजार तैंतीस मात्र)	110064, भारत में स्थित
ो अमित पाठक, श्रीमती अरुणा		सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. आरजेड-30
ाठक	प्रॉस्पेक्ट नं. 919519, रु. 2,13,193/- (रु. दो लाख तेरह हजार	माप ७५ वर्ग यार्ड्स, १ला तल (एलएचएस), ब्लॉक-र्ट
प्रॉस्पेक्ट नं. 919519, 722309)	एक सौ तिड़ानवे मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 722309, रु. 18,86,057/- (रु. अठारह लाख छियासी हजार सत्तावन मात्र)	जैन कॉलोनी पार्ट-III, उत्तम नगर, नई दिल्ली
ो फूल चंद पोद्दार, आर्दश एवं		सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः औद्योगिक भू खंड, मा
रीश उप्पर, श्रीमती हीरा देवी	प्रॉस्पेक्ट नं. 938300, रु. 2733526/- (रु. सत्ताईस लाख तैंतीस	100 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 143/687 में जो ग्रा
प्रॉस्पेक्ट नं. 938300, 940705)	हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं. ९४०७०५, रु. १०९७४७/- (रु. एक लाख नौ हजार सात सौ सैंतालिस मात्र)	कंझावाला, दिल्ली राज्य, दिल्ली-110086, भारत क विस्तारित लाल डोरा में स्थित है।
ो कृष्ण गोपाल, श्रीमती आरती, श्री		सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः एच.नं. 1034, माप 5
नश्याम, श्री जगदीश चन्द, श्रीमती		वर्ग यार्ड्स, ख. नं. 52 (पुराना लाल डोरा 1908-09) ज
षा रानी	छः सौ छत्तीस मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 938507, रु. 28,89,868/- (रु.	ग्राम नजफगढ़, तहसील नजफगढ़, दक्षिण दिल्ली
प्रॉरमेक्ट नं. 941665, 938507)	अटठ्ाईस लाख नवासी हजार आठ सौ अड़सठ मात्र)	110043, दिल्ली भारत की राजस्व सम्पदा में स्थित है।
ो हेराल्ड लॉरेन्स, एच लॉरेन्स		सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. सी-92, फ्लै
यूजिकल इंस्टीच्यूट, श्रीमती शिवानी ॉरेन्स	रु. 15,53,687/- (रु. पन्द्रह लाख तिड़ेपन हजार छः सौ सतासी मात्र)	नं. एस-4, 2रा तल, फ्रान्ट आरएचएस डीएलएफ दिलशा एक्स्टेII, एरिया माप 450 वर्ग फीट, भोपुरा, गाजियाबाव
प्रॉस्पेक्ट नं. IL10039192)		उत्तर प्रदेश, भारत-121001

उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय**: प्लॉट नं. 30/30 ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें स्थानः दिल्ली/एनसीआर हस्ता./- प्राधिकत अधिकारी तिथि: 04 सित. 2021 आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेइयूल्ड कमशियल बैंक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A. ध्लेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सुचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू रमाल काईनेंस बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह-ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी / ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत

कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का करना लीन की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीर को यह सृचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्ची एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिन् सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किर जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सन् खर्ची प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।				
ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण		
(खाता सं.) L9001060121327217 गजपाल सिंह (ऋणी), पूनम सिंह (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 हैं 661097/- रु. छ: लाख इकसठ हजार सतानवे मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड - मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्बन प्लॉट नं. 152 आरसी 135 गली नं. 14 आरसी 135 बी प्रगती विहार गाजियाबाद लोनी, यू.पी. क्षेत्रफल 25 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060813006236 ओम वीर नागर (ऋणी), संतोष देवी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 1690904/- रु. सौलह लाख नब्बे हजार नो सौ चार मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित मकान नं. वी- ७, खसरा नं. ३९२, गांव बारोला, दादर गोतम बुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल २०१८ वर्ग फीट		
(खाता सं.) L9001060116593719 रमेन (ऋणी), जाबा चाकी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 ₹ 588744/- रु. पांच लाख अठासी हजार सात सी चौवालीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट प्रोपर्टी नं. 2627, तीसरी मंजिल, दायीं साईंड का पोर्शन, छत्ता प्रताप सिंह सेन्टरल, दिल्ली क्षेत्रफल 13.54 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060114811335 हुमेद (ऋणी), शाहजान (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 ₹ 256155/- रु. दो लाख छप्पन हजार एक सी पचपन मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट प्लॉट नं. 37 ब्लॉक डी, सेक्टर 2 - 3 तायगी मार्केट, गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 50 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060100882651 अ कबर अली (ऋणी), जसप्रीत कौर (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रै 737889/- रु. सात लाख सैंतीस हजार आठ सौ नवासी मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित खसरा नं. 302 गांव प्रागना लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. क्षेत्रफल 900 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060121451161 जी इंटरप्राईजेज (ऋणी), गौरव सपरा (सह-ऋणी), नरेन्द्र कुमार सपरा (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रैं 1575972/- रु, पंद्रह लाख पिचहत्तर हजार नो सौ बहत्तर मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मेट्रा व अर्बन प्रोपर्टी वियरिंग नं. 13 42 17 आर ब्लॉक एक्सटेंशन मोहन गार्डन पश्चिम दिल्ली, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060119564192 सुन्देरसन ट्रेडिंग (ऋणी), अमित जैन (सह-ऋणी), प्रीयंका जैन (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 2541005/- रु. पच्चीस लाख इकतालीस हजार पांच मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मेट्टो व अर्बन 6295 ग्राउण्ड फ्लोर विथ रूफ राईट्स गाली रवि दास नबी करीम सेन्टरल दिल्ली क्षेत्रफल 9.33 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060119934795 कनीष्का इंटरप्रोईजेज (ऋणी), अनुज कुमार (सह-ऋणी), नेहा नेहा (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 766039/- रु. सात लाख छियासठ हजार उनतालीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्बन प्लॉट नं. 507 खसरा नं. 272 6 संगम विहार गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 50 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060714037202 सुमंत कुमार (ऋणी) , सुगमा देवी (सह-ऋणी), राम देव सिंह (सह-ऋणी), हेमन्त कुमार (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 2709529/- रु. सताईस लाख नो हजार पांच सौ उनतीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट बाहर की तरफ 3/2, अमन विहार लोनी गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट		
(खाता सं.) L9001061121542075 राजेन्द्र (ऋणी), रोहित कुमार (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 209537/- रु. दो लाख नो हजार पांच सौ सँतीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्बन 480 480 नोयडा गोतम बुद्ध नगर, दादरी, यू.पी. क्षेत्रफल 300 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060714871933 भारत (ऋणी), पायल कुमारी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 1828155/- रु. अठारह लाख अठाईस हजार एक सौ पचपन मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट 10 72 जीबी नगर, गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 200 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060120652195 राजेन्द्र (ऋणी), रोहित कुमार (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रै 1542685/- रु. पंद्रह लाख बयालीस हजार छः सौ पद्मासी मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्वन 480 सालरपुर, गोतम बुद्ध नगर, दादरी, यू.पी. क्षेत्रफल 300 वर्ग गज		

हुनद (ऋणा), साहजान (सह-ऋणा)	रु. दो लाख छप्पन हजार एक सी पचपन मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	मार्केट, गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 50 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060100882651 अकबर अली (ऋणी), जसप्रीत कौर (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 737889/- रु. सात लाख सैंतीस हजार आढ सौ नवासी मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित खसरा नं. 302 गांव प्रागना लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. क्षेत्रफल 900 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060121451161 जी इंटरप्राईजेज (ऋणी), गौरव सपरा (सह-ऋणी), नरेन्द्र कुमार सपरा (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रैं 1575972/- रु. पंद्रह लाख पिचहत्तर हजार नो सौ वहत्तर मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मेट्रा व अर्बन प्रोपर्टी वियरिंग न. 13 42 17 आर ब्लॉक एक्सटेंशन मोहन गार्डन पश्चिम दिल्ली, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060119564192 सुन्देरसन ट्रेडिंग (ऋणी) , अमित जैन (सह-ऋणी), प्रीयंका जैन (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 ₹ 2541005/- रु. पच्चीस लाख इकतालीस हजार पांच मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्वन 6295 ग्राउण्ड फ्लोर विथ रूफ राईट्स गाली रवि दास नबी करीम सेन्टरल दिल्ली क्षेत्रफल 9.33 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060119934795 कनीष्का इंटरप्रोईजेज (ऋणी), अनुज कुमार (सह-ऋणी), नेहा नेहा (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रैं 766039/- रु. सात लाख छियासठ हजार उनतालीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्वन प्लॉट नं. 507 खसरा नं. 272 6 संगम विहार गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 50 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060714037202 सुमंत कुमार (ऋणी), सुगमा देवी (सह-ऋणी), राम देव सिंह (सह-ऋणी), हेमन्त कुमार (सह-ऋणी)	16 अगरत 2021 रैं 2709529/- रु. सताईस लाख नो हजार पांच सौ उनतीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट बाहर की तरफ 3/2, अमन विहार लोनी गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001061121542075 राजेन्द्र (ऋणी), रोहित कुमार (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रैं 209537/- रु. दो लाख नो हजार पांच सौ सैंतीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्बन 480 480 नोयडा गोतम बुद्ध नगर, दादरी, यू.पी. क्षेत्रफल 300 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060714871933 भारत (ऋणी) , पायल कुमारी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रै 1828155/- रु. अठारह लाख अठाईस हजार एक सौ पचपन मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट 10 72 जीवी नगर, गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 200 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060120652195 राजेन्द (ऋणी), रोहित कुमार (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 1542685/- रु. पंद्रह लाख बयालीस हजार छः सौ पद्यासी मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्वन 480 सालरपुर, गोतम बुद्ध नगर, दादरी, यू.पी. क्षेत्रफल 300 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060121230031 परविंदर नागर (ऋणी), जयबीर (सह-ऋणी), मुनेश (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 1588622/- रु. पंदह लाख अठासी हजार छः सौ बाईस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अर्वन मकान नं. 113 133 डंकॉर गोतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, यू.पी. क्षेत्रफल 400 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060821161315 तेजपाल (ऋणी), ओम वाटी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 ₹ 293668/- रु. दो लाख तिरानवे हजार छः सौ अङ्सठ मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	(1) सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट मेट्रो य अर्वन प्लॉट नं. 12 24 1162 उत्तरांचल कॉलोनी गली नं. 2 लोनी गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 70 वर्ग गज (2) सम्पति स्थित गाजियाबाद उत्तरप्रदेश 201102 क्षेत्रफल 70 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060715272973 तेजपाल (ऋणी), ओम वाटी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 ₹ 1433309/- रु. चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ नो मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	(1) सम्पति स्थित मुनिशिपल कॉर्पोरेशन प्लॉट नं. 12/24 खसरा नं. 1162 प्रगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 70 वर्ग गज (2) सम्पति स्थित गाजियाबाद उत्तरप्रदेश 201102 क्षेत्रफल 70 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060113884470 सतवीर (ऋणी) , जगवीरी (सह-ऋणी), कमला (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 ₹ 567099/- रु. पांच लाख सड़सठ हजार निन्यानवे मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रोहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट कीला नं. 3 ओबलिक 4 ओबलिक 0 33 वाका मौजा, उंछा गीन फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060121558719 विक्रम (ऋणी), विक्रम (सह-ऋणी), सुशीला देवी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 रैं 500214/- रु. पांच लाख दो सो चौदह मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित ग्राम पंचायत खसरा ७, खसरा ८, एम९, खसरा १४ २ 1 खसरा८ खसरा ९ खसरा १७ खावस्पुरा गुडगांव, फरूखनगर, हरियाणा क्षेत्रफल २५० वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060116467512 मोहन लाल वर्मा (ऋणी), बब्लू वर्मा (सह-ऋणी), उमनाथ वर्मा (सह-ऋणी)	16 अगरत 2021 ₹ 2642492/- रु. छब्बीस लाख बयालीस हजार चार सौ बानवे मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति रिथत फ्रीहोल्ड विथिन मुनिशिपल लिमिट मुम नं. 31 किला नं. 3 9 10 किला नं. 5/2/2 गोंची फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 160 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060120315630 रमेश (ऋणी), जयपाल (सह-ऋणी), शिला देवी (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2021 र 1556030/- रु. पंद्रह लाख छप्पन हजार तीस मात्र दिनांक 16 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड मुनिशिपल लिमिट सेमी अर्बन व रूरल वास मोजा पालवाल राजीव नगर 133/6 फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 300 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001070117780378 अबू तालहा (ऋणी) , अबू हु रैरा (सह-ऋणी), रेहाना(सह-ऋणी)	25 अगस्त 2021 रूँ 1174116/- रु. ग्यारह लाख चोहतर हजार एक सौ सोलह मात्र दिनांक 24 अगस्त 2021 तक	सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड - मुनिशिपल लिमिट फ्लेट नं. 465, प्रथम तल, ब्लोक-जी, गुलमोहर स्टेट, गौत्तम बुद्ध नगर, नोएडा, यू.पी. क्षेत्रफल 430 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060719694087 & L9001061121300091 चन्देर भान (ऋणी), ज्योति शर्मा (सह-ऋणी)	27 अगस्त 2021 र 3158248/- रु. इकतीस लाख अठावन हजार दो सौ अडतालीस मात्र एवं र 604536/- रु. छ: लाख चार हजार पांच सौ छतीस मात्र दिनांक 27 अगस्त 2021 तक	तीसरा तल, प्लॉट नं. 20 बी, खसरा नं, 842, गांव नवादा, आबादी क्षेत्र कॉलोनी आनन्द विहार के नाम से झात, उत्तम नगर, नई दिल्ली क्षेत्रफल 72 वर्ग गज

मात्र दिनांक 27 अगस्त 2021 तक

25 अगस्त 2021

₹ 804177/-

रु. आठ लाख चार हजार एक सौ

सतत्तर मात्र दिनांक 25 अगस्त 2021 तक

19 अगस्त 2021

₹ 744185/-रु. सात लाख चावालीस हजार एक सा

पिच्यासी मात्र दिनांक 19 अगस्त 21 तक

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER SOUTHERN STAR CO-OP. (U) T/C SOCIETY LTD. E-2 & 3, 1st Floor, DDA Market, MOR Land

New Rajendra Nagar, New Delhi-110060

Ref. No SS/Election 2021

Dated: 01.09.2021

ELECTION NOTICE

It is notified that the undersigned has been appointed as Returning Officer by the SOUTHERN STAR CO-OP (U) T/C SOCIETY LTD, Delhi (Hereinafter called the Society) to hold Election of the Managing Committee of the Society. I hereby call a Special General Body Meeting of the aforesaid Society on 26.09.2021 (Sunday) at 10.00 A.M. at M.C.D. Community Hall, Block-6, Ramesh Nagar, New Delhi-110 015 for conducting the Election for one (1) Post of President, one (1) Post of Vice-President and Eleven (11) Posts of Managing Committee Members (out of which two posts are reserved for women candidates) as per the Rule of 53 and Schedule II of D.C.S. Rules 2007. A copy of the detailed agenda notice dated 16.08.2021 has been dispatched to all members vide Speed Post and also available at website. "southernstar.org" and all branch offices of the society.

New Delhi - 110 060 01.09.2021

(T. TARUN KUMAR) Returning Officer/Election Officer

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD

Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave- I, New Delhi-110048 TEL.: 91-11-49025758 FAX: 91-11-41633812, E-mail ID: info@jagsonpal.co.in Website: www.jagsonpal.co.in; CIN: L65929DL1991PLC043182

> INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Jagsonpal Finance & Leasing Limited will be held on Sunday, September 26, 2021 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 2, 2021. The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository

Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form). Members are hereby informed that the notice of the 30th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.jagsonpal.co.in). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013("the Act") read with the relevant rules made there under, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on

e-voting facility has been fixed as Sunday, September 19, 2021. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of benefic owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM. The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 23, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday, September 25, 2021 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be

the resolutions to be passed at the 30thAGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for

entitled to cast their vote again during AGM The Company has appointed Mr. Prasant Kumar Sarkar (Membership No. FCS No. 6996, C.P. No. 6534), Practising Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 30th AGM. The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Sumit Kumar Ghosh, Company Secretary, e-mail to jagsonpalfinance@gmail.com Address: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110048, Contact No.: 011-41633812 / 49025758 Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at info@masserv.com with a copy marked to the Company at jagsonpalfinance@gmail.com along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID& Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction

Since the 30th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 20, 2021 to Sunday, September 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM.

Place: New Delhi Date: 03.09.2021

For Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. Sumit Kumar Ghosh Company Secretary & Compliance Officer

'A part of your daily life'

णहार्ह्य यूफ्लेक्स लिमिटेड CIN: L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस: 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन: +91-11-26440917, 26440925, फॅक्स: +91-11-26216922 वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : secretarial@uflexltd.com

कंपनी के शेयरधारकों के ध्यान के लिए सूचना

कंपनी की बत्तीसवीं (32वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को अपराह 03:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लाग् प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, सामान्य परिपन्न सं. 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई. 2020 और सामान्य परिपन्न संख्या, 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और अन्य कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी (सामृहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी परिपत्र, एजीएम को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल ही सकेंगे।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वितीय वर्ष 2020-21 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वितीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साध 2 सितंबर 2021 को कंपनी के उन सदस्यों को जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं, को भेजा गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.uflexitd.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड ("एनएसई") पर क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी चपलबा है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, समय-समय पर संशोधित और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी हर्ष के साथ सदस्यों की इलेक्ट्रॉनिक मध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सर्विधा प्रदान करती है। कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेंड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली हैं। सदस्य सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए नीचे दी गई तारीखों ("रिमोट ई-वोटिंग") पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") 32वीं एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम सुविधा और ई-वोटिंग के माध्यम से 32वीं एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगा। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 11 सितंबर, 2021 से सोमवार, 27 सितंबर, 2021 (दोनों दिन

शामिल) एजीएम के उद्देश्य से और वर्ष 2020-21 के लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए बंद रहेंगे। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि: एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रोंनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है;

(बी) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय : शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021, सुबह 9:00 बजे

(सी) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयः रविवार, 26 सितंबर, 2021, शाम 5:00 बजे (डी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथिः सोमवार, सितंबर

20, 2021 सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होंगी, (इ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 20 सितंबर, 2021 के अनुसार शेयर रखता है, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए प्रक्रिया का पोलन कर सकता है । यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही

ई—वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 20 सितंबर, 2021 के अनुसार शेयर रखता है, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार

लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए प्रक्रिया का पालन कर सकता है । यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है; (एफ) सदस्य ध्यान दें -

(i) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति 26 सितंबर, 2021, सायं 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।

(ii) मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

(iii) कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में माग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथा

(iv) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख को दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक वोटिंग का

(जी) कंपनी और एजेंसी का वेबसाइट पता जहां बैठक की सूचना प्रदर्शित होती है: www.uflexitd.com और

(एच) इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर: श्री कपिल कुमार, उप महाप्रबंधक (सचिवीय),

पताः 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश- ।, नई दिल्ली - 110 048 कते यपलेक्स लिमिटेड BUTTI /-

अजय कृष्णा वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी संचिव ACS No.3296 पता : शी--001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी,

दिनाकं: 03.09.2021 ई-a. शेक्टर-a1, नौएडा-201301 (उ.प्र.)

www.readwhere.com

सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड - मुनिशिपल लिमिट प्लॉट नं. 172 खसरा नं. 39 नवचेतना शेकरी समिति गाजियाबाद, यू.पी. क्षेत्रफल 50 वर्ग गज

सम्पति स्थित फ्रीहोल्ड - मुनिशिपल लिमिट मेट्रो व अरबन एमयु नं. 299, किला नं. 9 भीम होटल

फरिदाबाद, पलवल, हरियाणा क्षेत्रफल 100 वर्ग प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड

स्थान : नोएडा

ईमेल आईडी: secretarial@uflexItd.com

टेलीफोन नंबर: 011-26440917, 011-26440925,

Chandigarh